



ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में प्रबंध निदेशक की अभिव्यक्ति

जबलपुर - राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान विभिन्न आयोजनों के माध्यम से म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. द्वारा ऊर्जा संरक्षण योजना की दिशा में प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए विद्युत उत्पादन केन्द्रों में कोयला, तेल, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों के उचित मात्रा में प्रयोग करने की महती आवश्यकता प्रतिपादित की गई ।

भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के दृष्टिगत म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के विद्युत उत्पादन केन्द्रों में विद्युत की खपत के साथ ही साथ विद्युत उत्पादन की लागत कम किए जाने एवं प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग करने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं । विद्युत उत्पादन हेतु पुरानी तकनीक की इकाइयों के स्थान पर नई तकनीक वाली अधिक क्षमता की इकाइयों की स्थापना की जा रही है । इस दिशा में कंपनी द्वारा खण्डवा स्थित श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह में सुपर क्रिटीकल इकाइयों की स्थापना की गई है । परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की बढ़ोतरी के साथ ही साथ कोयला, तेल व पानी की खपत कम होगी एवं अंततः प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

इसके साथ ही कंपनी द्वारा बिरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत गृह की पुरानी हो चुकी विद्युत इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण भी विचाराधीन है, जिससे उक्त विद्युत इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ ही उत्पादन लागत एवं सहायक संयंत्रों की विद्युत खपत में कमी होना अपेक्षित है । एनर्जी आडिट ब्यूरो द्वारा दी गई सलाह के तहत विद्युत उत्पादन गृहों के रूफटॉप एवं खाली पड़ी जगहों पर सोलर प्लांट लगाए जाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है । फलतः आक्सीलरी खपत में कमी संभव हो सकेगी ।

कंपनी द्वारा इसके अतिरिक्त विद्युत गृहों एवं कार्यालयों में कम विद्युत खपत वाले उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा संरक्षण का न सिर्फ महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल होगा, अपितु पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी ।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ए.पी. भैरवे ने प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग द्वारा अधिकतम विद्युत उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने एवं परियोजना के बेहतर संचालन, सुचारू रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाकर कंपनी में ऊर्जा संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कंपनी कार्मिकों से समन्वित प्रयास का आह्वान किया है ।